

रांची: रिम्स परिसर के कैटिन व हाॅस्टल में चल रहे मेस के खाद्य पदार्थों की हुई जांच



लिए गए सैंपल को जांच के लिए नामकुम स्थित फूड सेफ्टी लैब भेजा गया है।

- बुधवार को भी रिम्स कैटिन की जांच की गई थी
- रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि कुछ खामी तो नहीं थी

रिम्स स्थित कोविड मरीजों को खाना उपलब्ध कराने वाली कैटिन और जूनियर डॉक्टर (कोरोना वॉरियर्स) जिन हाॅस्टल में रहते हैं, वहां संचालित मेस में गुरुवार को खाद्य पदार्थ की क्वालिटी की जांच की गई। एसडीओ लोकेश मिश्रा के निर्देश पर फूड इंस्पेक्टर डॉ. एसएस कुल्लू ने कैटिन में खाना बनाने के लिए लाए गए चावल, आटा, नमक और मसाला आदि की भी जांच की। इसके लिए मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब भी मौके पर बुलाई गई थी।

इस संबंध में फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि रिम्स में सात बॉयज हाॅस्टल, दो गर्ल्स और एक नर्सिंग हाॅस्टल है। बुधवार को भी रिम्स कैटिन की जांच की गई थी। इसमें चार सैंपल कलेक्ट करने के अलावा ऑन स्पॉट भी खाद्य पदार्थों की जांच की गई थी। लिए गए सैंपल को जांच के लिए नामकुम स्थित फूड सेफ्टी लैब भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि कुछ खामी तो नहीं थी।



जांच के लिए मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब भी मौके पर बुलाई गई थी।

हॉस्टल के मेस के कीचन की हालत दयनीय
हेल्दी खाना के लिए जरूरी है कि कीचन भी साफ-सुथरा रहे। लेकिन फूड इंस्पेक्टर की जांच में हॉस्टल में चल रहे मेस के कीचन की साफ-सफाई और अन्य खामियां भी मिली हैं। हालांकि, अभी इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। उनका कहना है कि जांच संबंधी रिपोर्ट एसडीओ को देंगे। इसके बाद उनके निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।